



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 40-2019] CHANDIGARH, TUESDAY, OCTOBER 1, 2019 (ASVINA 9, 1941 SAKA)

PART II

Notifications of Election Commission of India-Other Notifications and Republications from the Gazette of India

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड,
नई दिल्ली-110001

तारीख: 25 सितम्बर, 2019
3 आश्विन, 1941(शक)

अधिसूचना

सं.56/2019(II) रा.दल.अनु-III.— निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आबंटन) आदेश , 1968 के पैरा 17 के उप पैरा 2 के अनुसरण में , भारत निर्वाचन आयोग , अपनी अधिसूचना सं. 56/2019/रा.दल.अनु. III, तारीख 15.03.2019, में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात:-

1. उक्त हिन्दी अधिसूचना से संलग्न सारणी - I (राष्ट्रीय दल) में -

(i) स्तम्भ 1, 2 , 3 व 4 के अन्तर्गत क्रम सं. 7 पर विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियाँ क्रमशः अन्तःस्थापित की जाएंगी-

क्र.सं.	राष्ट्रीय दल	आरक्षित प्रतीक	पता
8	नेशनल पीपुल्स पार्टी	किताब	प्लॉट नं० 90ए, लाचाउमिरी जिला, पूर्वी खासी हिल्स जिला, शिलांग ।

2. उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी - II (राज्यीय दल) में -

(i) क्र.सं. 13, 14 व 16 अर्थात् मणिपुर, मेघालय और नागालैंड राज्य की 'नेशनल पीपुल्स पार्टी' से संबंधित स्तम्भ 3, 4 व 5 पर विद्यमान प्रविष्टियों को विलोपित किया जाएगा ।

- (ii) क्रम सं. 2 पर विद्यमान, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित स्तम्भ 3,4 व 5 के अन्तर्गत, विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ क्रमशः अन्तःस्थापित की जाएंगी -

2. जनता दल (सेक्यूलर)	सिर पर धान ले जाती हुई कृषक महिला	5, सफदरजंग लेन, नई दिल्ली-110003.
3. जनता दल (यूनायटेड)	तीर	7, जन्तर मंतर रोड, नई दिल्ली-110001.

- (iii) स्तम्भ 1,2,3,4 व 5 के अन्तर्गत क्रम सं.25 पर विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियाँ क्रमशः अन्तःस्थापित की जाएंगी -

26.	राजस्थान	राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी	बोतल	प्लॉट नं. 26-27, आउट ऑफ खसरा 170/151, तेजा कॉलोनी, निकट शीतला माता मंदिर, मानासर, जिला- नागौर, राजस्थान- 341001
-----	----------	------------------------------	------	---

3. उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी - III (रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त दल) में -

- (i) स्तम्भ 1, 2 व 3 के अन्तर्गत क्रम सं. 2354 पर विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियाँ क्रमशः अन्तःस्थापित की जाएंगी-

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
2355	हिन्दु समाज पार्टी	राष्ट्रवादी धर्म सत्ता, 26-ए, खुर्शेदवाद, लखनऊ -4, उत्तर प्रदेश
2356	युनाईटेड सोशलिस्ट पार्टी	बी 41-एच/6, ब्राइट स्ट्रीट, दूसरा तल, पोस्ट- सर्कस एवेन्यू, थाना- कराया, कोलकाता, पश्चिम बंगाल- 700017
2357	भारतीय समता पार्टी	173 डी, राधा कृष्ण चौराहा, रामपुरम् श्याम नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश- 208013
2358	अखण्ड भारत चेतना दल	प्लॉट क्रमांक- 9, खसरा नं. 144/2, साईं कॉलोनी, भाईजान रिक्शे वाले के पीछे, न्यू कॉलोनी, गढ़ा, जबलपुर, मध्य प्रदेश- 482003
2359	भारतीय संगठित पार्टी (एस)	स्कूटर्स इंडिया चौराहा, कानपुर रोड, सरोजिनी नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226008
2360	इंडियन डेमोक्रेटिक पीपुल्स पार्टी	बाबूगाछ, पोस्ट- गेन्दागाछ, थाना- चोपड़ा, इस्लामपुर, जिला- उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल- 733207
2361	राष्ट्र उदय पार्टी	खसरा नं. 10, आतिफ विहार कॉलोनी, नजदीक सिटी आई.टी.आई., उत्तरधौना, चिनहट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226001
2362	क्रांतिकारी शेतकरी पार्टी	शॉप नं.20, तिरुपती कॉम्प्लेक्स, सोनई-राहुरी रोड, सोनई, तालुका- नेवासा, जिला- अहमदनगर, महाराष्ट्र- 414105

2363	सर्व समाज पार्टी	46, राजीव नगर, मण्डी चौक, गढमुक्तेश्वर, हापुड, उत्तर प्रदेश- 245101
2364	भारतीय जन समाट पार्टी	खसरा नं. 719, प्रॉपर्टी नं. x-9/10, ओल्ड नं. x-6/12, ग्राम- घोंडा गुजरन खादर, गली नं. 9, x- ब्लॉक, ब्रह्मपुरी, दिल्ली- 110053
2365	भारतीय महासंघ पार्टी	नं0 के-2413, नगर पालिका रोड, रोसड़ा समस्तीपुर, बिहार- 848210
2366	इंडिया जनशक्ति पार्टी	प्लॉट नं. 20, 21 एवं 22, नई बस्ती, नहर रोड, शैदपुर जागीर, भूईआ देवी मंदिर के निकट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226062
2367	भारतीय आमजन पार्टी (विवेकानन्द)	150, गणेश कॉलोनी, गली नं. 8, जैन मंदिर के पास, झोटवाडा, जयपुर, राजस्थान- 302012
2368	आदर्श भारत निर्माण दल	ग्राम- भैणी भैरों, तहसील- महम, जिला- रोहतक, हरियाणा- 124112
2369	फौजी किसान पार्टी	ग्राम- सेराहवा, पोस्ट ऑफिस- मुराली, वाया हरिनगर, जिला- पश्चिम चम्पारण, बिहार- 845103
2370	भारतीय सर्वजन विकास पार्टी	ग्राम- हर्षपुर (पूरे राल्ही), पोस्ट- कोटवाशुकुलपुर, तहसील- लालगंज, थाना- सांगीपुर, जिला- प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश- 230136
2371	भारत जागो जनता पार्टी	न्यू मार्किट, सहारा इंडिया बैंक बिल्डिंग, हाई स्कूल पारा, कटिहार, पटना, बिहार- 854105
2372	प्रोफेशनल पार्टी ऑफ इंडिया	मकान नं. 91, ब्लॉक- डी-1, श्याम विहार, नजफगढ़, नई दिल्ली- 110043
2373	आन्ध्र प्रदेश राष्ट्र समिति	डोर नं. 15-8-158/बी, जाकिर हुसैन नगर, 3 लैन, नंदिवेलुगु रोड, ओल्ड गुंदूर, गुंदूर जिला, आन्ध्र प्रदेश- 522001
2374	भारतीय लिबरल पार्टी	सी- 79, प्रथम तल, गली नं. 4, राधे श्याम पार्क एक्सटेंशन. राधे श्याम पार्ट एक्स. कॉलोनी, घोडं-ली वार्ड, कृष्णा नगर, दिल्ली- 110051
2375	भारतीय समतावादी पार्टी (ए)	निकट खान आटा चक्की, अपोजिट देवी लाल कॉलोनी, सरस्वती विहार, मेहलाना रोड, तहसील एवं जिला- सोनीपत, हरियाणा- 131001
2376	भारतीय सबका दल	मुहल्ला- गोलवार टोला, पोस्ट, थाना व तहसील- मुहम्मदाबाद गोहना, जनपद- मऊ, उत्तर प्रदेश- 276403
2377	राजनैतिक चेतना दल	प्लॉट नं. 78, खाता संख्या- 93, ग्राम- सिकरिया, पोस्ट- सुघड़ी, थाना- गोविन्दपुर, जिला- नवादा, बिहार- 805126

2378	भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल	भवन संख्या - ए-1061, सेक्टर- आई, एल.डी.ए. कॉलोनी, कानपुर रोड, पोस्ट- एल.डी.ए. कॉलोनी, जिला- लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226012
2379	भारतीय राष्ट्रीय दल	सी- 6/52, यमुना विहार, दिल्ली- 110053
2380	राष्ट्रवादी जनविकास पार्टी	मकान सं. 7-जी-27, जवाहर नगर, श्री गंगानगर, राजस्थान- 335001
2381	आजाद भारत पार्टी (नेशनल)	गांव- 50 कुटिया रामपुर, परगना एवं तहसील- नरवाल, जिला- कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश- 209401
2382	इंडियन एलाऐंस पार्टी	शॉप नं. 6, एल/1/21/6/83, अलनूर सोसायटी, अहमदाबाद रोड, बालासिनोर, जिला- महीसागर, गुजरात- 388225
2383	अन्ना द्राविड कड़गम	8/1, कटचोरि रोड, तिरुतुरैपण्डि, जिला- तिरुवारूर, तमिलनाडु- 614713
2384	आम जन नीति पार्टी	वार्ड नं. 8, सेक्टर नं. 12एल, जी.जी.एस.पब्लिक स्कूल के पास, हनुमानगढ़ जंक्शन, राजस्थान- 335512
2385	कर्नाटक समता पक्ष	नं. 718, एस. कलेदार प्लॉट, तिरुपुर, नवलगुंड, जिला- धारवाड़, कर्नाटक- 582208
2386	आर्थिक विकास पार्टी	नील कण्ठ धाम मठ जिन्दा नागा समाधि, ग्राम- किनुखेडी, पोस्ट- झारडा, तहसील- मल्हारगढ़, जिला- मंदसौर, मध्य प्रदेश- 458553
2387	अमन और शांति तहरीक-ई-जम्मू और कश्मीर	जेके-ई-खड़मात मरकज, के.पी.चौक, खन्नाबल, अनन्तनाग, गवर्नमेंट हाई सेकेण्डरी स्कूल के पास, जम्मू और कश्मीर- 192101
2388	भारतीय प्रगनावंथा कांग्रेस	60सी, 80 फीट रोड, आई.टी.आई लेआउट, मल्लाथाहल्सी, नगरमावी वार्ड, बेंगलोर, कर्नाटक- 560056
2389	श्रम शक्ति पार्टी	जे-1749, जे- ब्लॉक, जहाँगिरपुरी, दिल्ली- 110033
2390	युवा कर्नाटक पक्षा	# 66, आनेपुरा - गांव, निधारमंगला -पोस्ट, मालूर- तालुक, कोलार जिला, कर्नाटक- 563137
2391	इंडियन पीपल एसोसियेशन पार्टी	2-74, गांव- वेंकटापुर, लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर, टाउन/मंडल- वेलपुर, जिला- निजामाबाद, तेलंगाना- 503311
2392	वोआईस ऑफ लेबर पार्टी (जम्मू और काश्मीर)	खसरा नं. 539, गांव- आति, पोस्ट- फतेहपुर, तहसील व जिला- राजौरी, जम्मू और काश्मीर- 185131

2393	नेशनल सोशलिस्ट पार्टी (युनाइटेड)	फ्लैट नं. 6, प्रथम तल, साई कृपा हाउसिंग सोसाइटी, 45/6, हॉस्पिटल कॉलोनी, तालेगांव, डभाडे, तालुका- मावल, जिला- पुणे, महाराष्ट्र- 410507
2394	पार्टी ऑफ युनाइटेड इंडियन्स	बंगला नं. 1, अक्षय कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, नियर एच.पी.गैस गोदान, बदलापुर (ईस्ट), तालुका- अम्बरनाथ, ठाणे, महाराष्ट्र- 421503
2395	भारतीय मानव कल्याण पार्टी	ई 49/1, राजहर्ष कॉलोनी, कोलार रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश- 462042
2396	राष्ट्रीय जन समर्थन पार्टी	ए-122बी, ग्राउन्ड फ्लोर, हरि नगर, नई दिल्ली- 110064
2397	समाज सुधारक पार्टी	मकान सं.723/2,मंगल पाण्डेय नगर, सेक्टर-2,विश्वविद्यालय रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश-250004
2398	टीपू सुल्तान पार्टी	56/2,आतार हाउस, नियर कर्बला बेस, रेविवार पेठ, अंबाजोगाई, जिला-बीड, महाराष्ट्र- 431517
2399	उत्तर कर्नाटक पार्टी	नं.25,4 क्रॉस, एम.एस.आर.नगर, बेंगलुरु, कर्नाटक- 560054
2400	अखिल भारतीय किसान मजदूर पार्टी	ग्राम-फरीदपुर, तहसील-तिगांव, जिला-फरीदाबाद, हरियाणा-121101
2401	राष्ट्रवादी जनसंघ	पकड़ी गांधीनगर मोड, (कतीरा रोड), जैन कॉलेज पूर्वी गेट के पास, कतीरा, आरा, नवादा, जिला-भोजपुर, बिहार-802301
2402	स्वदेशी हिन्द पार्टी	ग्राम व पोस्ट-हतिसा,मथुरा रोड क्रासिंग के पास,तहसील एवं जिला-हाथरस, उत्तर प्रदेश- 204101
2403	संभाजी ब्रिगेड पार्टी	साई कॉम्प्लेक्स, गाला नं.7, नवा मोंढा, हिंगोली, तालुका एवं जिला-हिंगोली, महाराष्ट्र-431513
2404	रायलसीमा प्रजा समिति	मकान नं. 5-54, चौदेश्वरी बाजार, पोस्ट एवं मंडल-कोडूमूर, कर्नूल जिला, आन्ध्र प्रदेश-518464
2405	नेशनल समाजवादी कांग्रेस	नं. 42, नायडू लेआउट, कुवेम्पु नगर, बैंगलोर, कर्नाटक-560014
2406	स्वराज क्रांति पार्टी	बी-31, दूसरा तल, टेजेन्द्रा कॉम्प्लेक्स, सी.एम.सी. के सामने, ओढव रोड, ओढव, अहमदाबाद, गुजरात-382415

2407	तेलुगु जनता पार्टी	नं. 70-7/16/2ए, राम्नाययापेटा, टी.एस. आर. नगर, रोड नं. 2, काकीनाडा अर्बन मंडल, जिला-इ.जी., आन्ध्र प्रदेश-533003
2408	अखिल भारतीय जनादेश पार्टी	मकान सं.43, ग्राम-देल्हुआ नजदीक बेरुआरबारी, मेन रोड, सुखपुरा, बांसडीह रोड, जिला-बलिया, उत्तर प्रदेश-277301
2409	सत्यनिष्ठ जन सेवक पार्टी	मकान नं.128, वार्ड नं.5, ललित नगर, एसडीएम निवास के सामने, तहसील व पोस्ट-सुन्दर नगर, जिला-मण्डी, हिमाचल प्रदेश-175019
2410	पीपुल्स रूलिंग पार्टी	फ्लैट नं0-74, गांधी नगर,चकाली गुन्टा,एटुकुरु रोड, कम्मा सैशशाह ग्राउण्ड, रेवेन्यु वार्ड-32, गुंदूर, आन्ध्र प्रदेश-522003
2411	कर्नाटक जनसेवा पार्टी	ओल्ड पीआईडी नं.36, खाता नं.151, सर्वे नं.42, कावेरीपुरा मेन रोड, नं.587, नियर महादेशवरा मंदिर रोड, रंगनाथापुरा, कामाक्षीपलया, बेंगलुरु, कर्नाटक-560079
2412	सब जन विकास राष्ट्रीय पार्टी	शॉप/हाउस ऑफ नबी रसूल अंसारी पुत्र मोहम्मद हुसैन, गांव व पोस्ट-बारागाँव, वाया खरासारा, जिला-बलिया, उत्तर प्रदेश-277302
2413	रेवोलूशनरी पार्टी	एस एच-3/40, आर.एस., विश्वनाथपुरी कालोनी, नवलपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221003
2414	उदय चन्द्रा देशम पार्टी	नं0-27, कामराज नेदुचलाई, ओल्ड पेरूंगलाथुर, चेन्नई, तमिलनाडु-600063
2415	कर्नाटक राष्ट्र समिति	नं.31/2,8वा इ मेन,चतुर्थ ब्लॉक, जयनगर, बेंगलुरु, कर्नाटक-560011
2416	अनाइथू उलागा तमिलारगल मुनेत्रा कलगम	नं.17, एजहिल नगर, पेरुमालपुरम, पालयमकोट्टई, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु-627007
2417	आम लोक पार्टी युनाइटेड	मकान सं.328, गली नं.4, नेताजी पार्क हैबोवाल कलां, लुधियाना, पंजाब-141001
2418	जोरम पीपुल्स मुवमेंट	ट्रेजरी स्कवायर, आईजॉल, मिजोरम-796001
2419	हम एक है पार्टी	मकान सं. 212, खसरा नं.15/21, रशीद नगर, नाल साहब रोड, नागपुर, महाराष्ट्र-440018
2420	भारतीय समाजवादी पार्टी (लोकतांत्रिक)	मुहल्ला-चाहशीरी, पंजाब एंड सिंध बैंक लेन, सिविल लाइंस, बिजनौर, जनपद-बिजनौर, उत्तर प्रदेश-246701
2421	अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी	3 सर्कुलर रोड, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश-211001
2422	सर्वजन आवाज पार्टी	नं.528, ब्लॉक-बी, प्लैटिनम हाइट्स, सेक्टर-18बी, द्वारका, नई दिल्ली-110078

2423	जिन्दाबाद क्रान्ति पार्टी	31/38ए, तृतीय तल, गली नं.5, भीकम सिंह कॉलोनी, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032
2424	जना शंखारावम पार्टी	मकान नं.4-1-216/54/502, कार्तिकेय नगर, नाचारम, उप्पल, मेड्चल मल्कजगिरि जिला, तेलंगाना-500076
2425	जननायक युवा शक्ति पार्टी	म.नं.587/20, खासा चौक के पास, रामेश्वर पुरम कॉलोनी, कबीरपुर, सोनीपत, हरियाणा-131001
2426	इंडिया ग्रीन्स पार्टी	104, वर्धमान कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, एलएससी, सविता विहार, दिल्ली-110092
2427	प्रजा अधिकार पार्टी	डोर नं.4-107-1, एस.सी.कॉलोनी, पंचलिंगाला ग्राम, कर्नूल मण्डल, कर्नूल जिला, आन्ध्र प्रदेश-518004
2428	भारतीय जनचेतना दल	नं.70, एलआईजी इंदिरा नगर, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश-208026
2429	हक इंसाफ पार्टी	नं.3037, तलब खटिकान, जम्मू एवं कश्मीर-180001
2430	बहादुर आदमी पार्टी	एस-11/37-38ए, चौकाघाट, वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221002
2431	राष्ट्रीय पूर्वांचल एकता पार्टी	प्लॉट नं.145, पैगम्बरपुर, पोस्ट-रसूलगढ़, थाना-सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221007
2432	देशा दल	मानस रंजन मिश्रा खतियान नं.466/90, तहसील नं.198, आनंद विहार, सर्वहल, हनुमान मंदिर के पास, पोस्ट एवं थाना-झारसुगुडा, जिला-झारसुगुडा, ओडिशा-768201
2433	भारतीय जन समाज पार्टी	एल.जी.एफ.123, खजाना कॉम्प्लेक्स, आशियाना, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226012
2434	सकाला जनुला पार्टी	नं.7-23/1, एम.वेंकटायपलेम, खम्मम ग्रामीण, खम्मम जिला, तेलंगाना-507003
2435	इंडियन नेशनल सेकुलर डेमोक्रेटिक पार्टी (ऑफ इंडिया)	विक्रम फार्म, बड़ी नहर के पास, वैरोवाल रोड, जण्डियाला गुरु, जिला-अमृतसर, पंजाब-143115
2436	अर्जक अधिकार दल	नं.128/169/26-ए, ब्लॉक-के, किदवई नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश-208011
2437	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले)	नं.3/4, इंसा हटमेंट, आजाद मैदान, फोर्ट, मुंबई, महाराष्ट्र-400001
2438	मूलजन शक्ति पार्टी	मकान नं.394, गली नं.18, विश्वकर्मा मंदिर के पास, करन विहार, करनाल, हरियाणा-132001
2439	इंडियन नेशनल यूथ पार्टी	नं.68-बी, देवासंद्रा, के.आर.पूरा, बेंगलुरु, कर्नाटक-560036

2440	अम्बेडकर सेना पार्टी	ग्राम-कबरी, रविदास मंदिर के पास, तहसील व जिला-पानीपत, हरियाणा-132013
2441	हिन्दुस्तानवादी पार्टी (जयहिन्द)	मकान सं.102, ग्राम-रमदत्तपुर, पोस्ट- पाण्डेयपुर, थाना-कैण्ट, वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221007
2442	अन्ना एमजीआर द्रविड़ा मक्कल कलगम	नं.150, 3rd क्रॉस स्ट्रीट, अलवरथिरुनगर, श्रीलक्ष्मी नगर, चेन्नई, तमिलनाडु-600087
2443	डेमोक्रेटिक सोशल जस्टिस पार्टी	तिरुवोणम, एन.एल.आर.ए.140, नीराङ्गी लैन (नं.7/242), तिरुवनन्तपुरम नगरसभ, उल्लूर, मेडिकल कॉलेज, पो.ऑ.-तिरुवनन्तपुरम, केरल-695011
2444	इंडियन नेशनल युवा जना पार्टी	मकान नं.9-14, प्रशांत नगर, बोडउप्पल, घटकेसर मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना-500092
2445	जना राज्यम पार्टी	मकान नं.8-217/16, धर्मारेड्डी आर्केट, फ्लैट-टी 1, गायत्री नगर, लक्ष्मीनगर कॉलोनी, रोड नं.3, जिल्लेला गुडा म्यूनिसिपलिटी, बालापुर मण्डल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना-500097
2446	जनता स्वाभिमान पार्टी	कटघरा देहाती, हवेली, सदर, जौनपुर, उत्तर प्रदेश-222002
2447	करुणाडगा तमिझार काची	नं.15, निदरसनम, जेवी.शेट्टी, रामासामी पाल्या, एम.एस. नगर पोस्ट, बेंगलुरु, कर्नाटक-560033
2448	सुप्रीम जीरो पार्टी ऑफ भारत	वार्ड नं.6, होल्डिंग नं.222, उपरी शाही, खोरधा म्यूनिसिपलिटी, पोस्ट/थाना/जिला-खोरधा, ओडिशा-752056
2449	मन तेलंगाना राष्ट्र समायिका पार्टी	मिग ओग ब्लॉक प्रथम तल नंबर 6, बागलिंगमपल्ली, अपोलो फार्मसी के ऊपर, टीएसएसपीडीसीआई, कार्यालय और इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन, सुंदराया विज्ञान भवन और पार्क के पास, हैदराबाद, तेलंगाना-500044
2450	लोक सेना पार्टी	अहमद नगर रोड, मकान नं.-1-4-2956, गुलशन नगर, बालेपीर, बीड, महाराष्ट्र-431122
2451	न्याय पार्टी	नं.319, स्वामीपाड़ा, बुढाना गेट, मेरठ सिटी, उत्तर प्रदेश-250002
2452	भारतीय लोक सत्ता पार्टी	गली नं.6, वार्ड नं.47, गडोरा का पुरा, जिला-मुरैना, मध्य प्रदेश-476001
2453	राष्ट्रीय जयहिन्द पार्टी	आदर्श नगर, कोकर, थाना-सदर, जिला-रांची, झारखण्ड-8340041
2454	भारतीय संघर्ष मोर्चा	सी4/33, ई.डब्ल्यू.एस., विश्व बैंक कॉलोनी, ए.डी.ए., नैनी, तहसील-करछना, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश-212301

2455	राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी	वार्ड नं.36, गांव-बिहार शरीफ, बड़ी दरगाह, नालंदा, बिहार-803101
2456	भारतीय संघर्ष समिति	मकान सं.4684, निसार नगर, करीदा संकुल के सामने, जम्भून रोड, सांगवान, बुलढाणा, महाराष्ट्र-443001
2457	अम्बेडकर विकास पार्टी	गांव-रोहता, इंदिरा आवास कॉलोनी, थाना-सदर बाजार, आगरा, उत्तर प्रदेश-282009
2458	कानून राज पार्टी	डी-1/1045, गली नं. 27, हर्ष विहार, शाहदरा, दिल्ली-110093
2459	अखण्ड मानव पार्टी	मकान नं.सी.-20, नीलबड़ बालाजी नगर, फेस-1, तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल, मध्य प्रदेश-462044
2460	भारतीय जन समरसता पार्टी	5081, विश्वकर्मा नगर, प्लॉट नं.80, वार्ड नं.14, द्वारकापुरी, रामेश्वरी रोड, राधा मंदिर के पास, पार्वती नगर, नागपुर, महाराष्ट्र-440027
2461	राष्ट्रीय समाजहित दल	मुहल्ला-देवी मंदिर कॉलोनी (डीएम कॉलोनी), पेट्रोल पम्प के बगल में, दीघा, पटना, बिहार-800011
2462	ओडिशा कल्याण पार्टी	प्लॉट नं.44 (प्रथम मंजिल), सत्यनगर, पो.ओं.-सत्यनगर, थाना-खारवेल नगर, नगर-भुवनेश्वर, जिला-खुर्दा, ओडिशा-7510007
2463	सिक्किम नेशनल पीपल्स पार्टी	द जोंग, एम.जी.मार्ग, गंगटोक, ईस्ट सिक्किम-737101
2464	राष्ट्रीय मानव सेवा पार्टी	खाता नं.60, खसरा नं.03, मौजा नं.82, श्रीनगर हाऊस, समूखिया मोड, नियर न्यू पुलिस लाइन बांका, जिला-बांका, बिहार-813102
2465	नेताजी काँग्रेस सेना	रंगा प्लेस, ग्राउंड फ्लोर, एस.न.48/2/10, वाघजल नगर, अम्बेगाँव खुर्द, कटराज-पो.ओ., पुणे-411046
2466	अखिल भारतीय जनशक्ति पार्टी	2538, हडसन लाईन, जी.टी.बी.नगर, दिल्ली-110009
2467	भारतीय नागरिक सुरक्षा पार्टी	नं.13, न्यू केतन सोसाइटी, नजदीक उमा शिक्षण तीर्थ, भ.भाग्योदय सोसाइटी, नरोदा, अहमदाबाद, गुजरात-382325
2468	राष्ट्रीय जन-स्वाभिमान पार्टी	नं.1 बी, 223, एमआईजी, आवास विकास कॉलोनी, रुकुनपुर, शिकोहाबाद, जिला-फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश-283135
2469	राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी	श्रीशिपमा बिल्डिंग, एमिटी विश्वविद्यालय गेट नं.1 के सामने, निजामपुर, मल्हौर, पी.एस.-चिनहट, तहसील-सदर लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226028

2470	विशाल जनता पार्टी	नं.1/4649/183, बुद्ध बाजार गली, सब गली नं.8, मंडोली रोड, न्यू मार्डन शाहदरा, दिल्ली-110092
2471	राष्ट्रीय समाज दल (आर)	मकान सं.193, वार्ड सं.7, शास्त्री नगर, कोरांव, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश-212306
2472	ह्यूमन डेमोक्रेटिक पार्टी	मकान सं.2/42, वूसिपल्ली गांव, थेनेपल्ली पोस्ट, वेपनपल्ली पंचायती, पूतलपट्ट मंडल, चित्तूर-जिला, आन्ध्र प्रदेश-517124
2473	लोक शक्ति पार्टी (लोकतांत्रिक)	मकान नं.2, तृतीय तल, शकरपुर खास दिल्ली-110092
2474	राष्ट्रीय युवा मोर्चा दल	ग्राम-बलेजी, पोस्ट-फेफना, जिला-बलिया, उत्तर प्रदेश-277503
2475	पहाड़ी पार्टी	ग्राम-तल्ली बागी, पट्टी-सारज्यूला, पोस्ट-भागीरथपुरम, विकास खण्ड-चम्बा, जिला-टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड-249145
2476	ताराराणी पक्ष	वार्ड नं. 6, मकान नं.2067, धानगर माल (शिवनगर), कोरोची, तहसील- हातकणंगले, जिला- कोल्हापुर महाराष्ट्र- 416109
2477	आपसी सहयोग पार्टी	ई-737, ई-ब्लॉक, जे.जे.कॉलोनी, मंगोलपुरी, दिल्ली-110083
2478	ऑल इंडिया मजलिस-ए-इन्कलाब-ए-मिल्लत	नं. 23-1-1009/13, मोगलपुरा, हैदराबाद, तेलंगाना- 500002
2479	डिजिटल ऑर्गनाइजेशन ऑफ नेशन पार्टी	वार्ड नं. 25, मालमत्ता क्रमांक 35, प्लॉट नं. 3776, मोतीनगर पुसद, तालुका- पुसद, जिला- यवतमाल, महाराष्ट्र- 445204
2480	ऑल इंडिया यूथ डेवलपमेन्ट पार्टी	4/286, कालीपुरम वट्टम, वेला कुट्टई ग्राम, वनियाम्बाडी- तालुक, जिला- वेल्लोर तमिलनाडु- 635752
2481	मक्कल मुनेत्र कांग्रेस	नं. 12, प्रथम क्रॉस स्ट्रीट, बालाजी नगर, पुदुचेरी- 605013.
2482	लोकशाही निर्माण पार्टी	नं. 6, प्राईम रोज, क्वीन पार्क, दीपक हॉस्पिटल के पीछे, मीरा भयंदर रोड, मीरा रोड, जिला- थाने, महाराष्ट्र- 401107
2483	गरीबजन समाज पार्टी	706/ए-6, तिरखा रोड, जाग्रति विहार, गढ़ रोड, मेरठ- 250004, उत्तर प्रदेश
2484	मजदूर एकता पार्टी	नं. बी.-2/208, नन्द नगरी, शहादरा, दिल्ली- 110093
2485	सर्व समाज जनता पार्टी	ग्राम व पोस्ट- ओरिल (खपडियाचक), तहसील- फूलपुर, जिला- आजमगढ़ उत्तर प्रदेश- 223222
2486	स्वराज्य सेना (महाराष्ट्र)	नं. 586, मुहल्ला- मासुडी, पोस्ट- टाका, तहसील- औसा, जिला- लातूर, महाराष्ट्र- 413520

2487	मदर लैंड नेशनल पार्टी	सर्वे नं. 20+21, डुप्लेक्स नं. 05, नोमान डुप्लेक्स, इकबाल एवेन्यु के पास, नियर कैनल, फतेहवादी, अहमदाबाद, गुजरात- 380055
------	-----------------------	---

- (ii) क्रम सं. 708 के सामने 'डेमोक्रेटिक मूवमेंट' के संबंध में स्तम्भ 2 पर विद्यमान प्रविष्टि को, प्रविष्टि "नेचर मेनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी" से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- (iii) क्रम सं. 908 के सामने 'इन्डियन पब्लिक पार्टी' के संबंध में स्तम्भ 3 पर विद्यमान प्रविष्टियों को , प्रविष्टि "बी-1, राज कम्पलेक्स, संस्कार मंडल, भवनगर - 364002, गुजरात" से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- (iv) क्रम सं. 1136 के सामने 'झारखण्ड मुक्ति मोर्चा (उलगुलान)' के संबंध में स्तम्भ 3 पर विद्यमान प्रविष्टियों को, प्रविष्टि "द्वारा श्री ओम प्रकाश सिंह, ग्राम एवं पो. - मधुकम, रोड नं.4, थाना - सुखदेव नगर, जिला - राँची, झारखण्ड - 834001" से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- (v) क्रम सं. 1509 के सामने 'पीपल्स युनियन पार्टी' के संबंध में स्तम्भ 3 पर विद्यमान प्रविष्टियों को , प्रविष्टि "धर्मावत हाउस, हाउस नं. 1015, शुक्रावर पेठ, तिलक रोड, सवरगेट, पुणे-411002, महाराष्ट्र" से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- (vi) क्रम सं. 1534 के सामने 'प्रगतिशील जनता पार्टी' के संबंध में स्तम्भ 3 पर विद्यमान प्रविष्टियों को , प्रविष्टि "बजरंग विहार कॉलोनी, दीघा आशियाना रोड, थाना-राजीव नगर, पोस्ट-आशियाना नगर, पटना-800025, बिहार" से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- (vii) क्रम सं. 1677 के सामने 'राष्ट्रीय भागीदारी समाज पार्टी' के संबंध में स्तम्भ 3 पर विद्यमान प्रविष्टियों को, प्रविष्टि "गाँव-गढ़ी (मेहन्दा मोड़), तहसील-हाँसी, जिला-हिसार, हरियाणा-125033" से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- (viii) क्रम सं. 1783 के सामने 'राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी' के संबंध में विद्यमान प्रविष्टियों को , विलोपित किया जाएगा ।
- (ix) क्रम सं. 1941 के सामने 'समान्या मक्कल नाला काची' के संबंध में स्तम्भ 3 पर विद्यमान प्रविष्टियों को, प्रविष्टि "एस.एफ.न.1172/12ए, करूर बाईपास रोड, इन्दिरा नगर, इरोड, तमिलनाडू - 638002" से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- (x) क्रम सं. 2029 के सामने 'सेवा दल' के संबंध में स्तम्भ 3 पर विद्यमान प्रविष्टियों को , प्रविष्टि "532, (ऑपोजिट 126-आर), सी.आर.कॉलेज रोड, माडल टाउन, रोहतक-124001, हरियाणा" से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
3. उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी- IV (मुक्त प्रतीकों की सूची) में -
- (i) क्रम सं. 20 पर विद्यमान प्रतीक 'बोतल' को, मुक्त प्रतीकों की सूची कि प्रविष्टि से विलोपित किया जाएगा ।

आदेश से,

एन० टी० भूटिया,
सचिव
भारत निर्वाचन आयोग ।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan,
Ashoka Road,
New Delhi-110001

Dated: 25th September, 2019

3 Asvina, 1941 (Saka)

Notification

No. 56/2019(II)/PPS-III.— In pursuance of sub-paragraph (2) of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation & Allotment) Order, 1968, the Election Commission of India hereby makes the following further amendments to its Notification No. 56/2019/PPS-III, dated 15th March, 2019, as amended from time to time namely: -

1. In Table I (National Parties), appended to the said Notification:-

- (i) After the existing entries at Sl. No. 7, the following entries shall be inserted:

Sl.No	Name of the party	Symbol Reserved	Address
8.	National People's Party	Book	Plot No.90A, Lachau miere District, East Khasi Hills District, Shillong.

2. In Table II (State Parties), appended to the said Notification:-

- (i) Against Sl. No. 13, 14 and 16 in respect of "National People's Party" pertaining to the States of Manipur, Meghalaya and Nagaland, the existing entries under column 3,4 and 5 shall be deleted.
- (ii) Against Sl. No.2 related to Arunachal Pradesh, after the existing entries, the following entries shall be inserted under Column Nos.3, 4 & 5 respectively:

2. Janata Dal (Secular)	A Lady Farmer carrying Paddy on her head	5, Safdarjung Lane, New Delhi – 110003.
3. Janata Dal (United)"	Arrow	7, Jantar Mantar Road, New Delhi-110001.

- (iii) After the existing entries at Sl. No.25 the following entries shall be inserted under Column Nos.1,2,3, 4 & 5 respectively:

26	Rajasthan	Rashtriya Loktantrik Party	Bottle	Plot No. 26-27, Out of Khasra No. 170/151, Teja Colony, Near Sheetla Mata Temple, Manasar, District- Nagaur, Rajasthan- 341001.
----	-----------	----------------------------	--------	---

3. In Table III (Registered un-recognised parties), appended to the said Notification:-

- (i) After the existing entries at Sl. No.2354, the following entries shall be inserted under Column Nos. 1, 2 & 3, respectively: -

Sl. No.	Name of the party	Address
2355	Hindu Samaj Party	Rashtrawadi Dharma Satta, 26-A, Khurshedbad, Lucknow – 4, Uttar Pradesh
2356	United Socialist Party	B 41-H/6, Bright Street, 2nd floor, P.O. Circus Avenue, P.S. Karaya, Kolkata, West Bengal- 700017
2357	Bhartiya Samta Party	173D, Radha Krishna Chauraha, Rampuram Shyam Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh- 208013

2358	Akhand Bharat Chetna Dal	Plot No. 9, Khasra No. 114/2, Sai Colony, Bhaijan Rikshe Vale Ke Peeche, New Colony, Garha, Jabalpur, Madhya Pradesh- 482003
2359	Bharatiya Sanghathit Party (S)	Scooters India Chourah, Kanpur Road, Sarojini Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh – 226008
2360	Indian Democratic People's Party	Babugachh, P.O. Gendagachh, P.S. Chopra, Islampur, District- Uttar Dinajpur, West Bengal- 733207
2361	Rashtra Uday Party	Khasra No. 10, Atif Vihar Colony, Near City I.T.I., Uttardhauna, Chinhat, Lucknow, Uttar Pradesh- 226001
2362	Krantikari Shetkari Party	Shop No. 20, Tirupati Complex, Sonai- Rahuri Road, Sonai, Taluka- Newasa, District- Ahmednagar, Maharashtra- 414105
2363	Sarv Samaj Party	46, Rajeev Nagar, Mandi Chowk, Gadhmukteshwar, Hapur, Uttar Pradesh- 245101
2364	Bhartiya Jan Samrat Party	Khasra No. 719, Property No. X-9/10, Old No. X-6/12, Village- Ghonda Gujran Khadar, Gali No. 9, X- Block, Brahampuri, Delhi- 110053
2365	Bhartiya Mahasangh Party	No. K-2413, Nagar Palika Road, Rosera Samastipur, Bihar – 848210
2366	India Janshakti Party	Plot No. 20, 21 & 22, Nai Basti, Nahar Road, Saidpur Jagir, Near Bhuiyan Devi Mandir, Lucknow, Uttar Pradesh- 226062
2367	Bharatiya Aamjan Party (Vivekanand)	150, Ganesh Colony, Gali No. 8, Near Jain Mandir, Jhothwada, Jaipur, Rajasthan-302012
2368	Aadarsh Bharat Nirman Dal	Village- Bhaini Bheron, Teshil- Meham, District- Rohtak, Haryana- 124112
2369	Fauji Kisan Party	Village- Serahwa, Post office- Murali, Via Harinagar, District- West Champaran, Bihar- 845103
2370	Bharatiya Sarvjan Vikas Party	Village- Harshpur (pure Ralhi), Post- Kotwashukulpur, Tehsil- Lalganj, P.S. Sangipur, District- Pratapgarh, Uttar Pradesh- 230136
2371	Bharat Jago Janta Party	New Market, Sahara India Bank Building, High School Para, Katihar, Patna, Bihar- 854105
2372	Professional Party of India	H.No. 91, Block- D-1, Shyam Vihar, Najafgarh, New Delhi- 110043
2373	Andhra Pradesh Rashtra Samithi	Door No. 15-8-158/B, Jakeer Hussain Nagar, 3rd Lane, Nandivelugu Road, Old Guntur, Guntur District, Andhra Pradesh- 522001
2374	Bharatiya Liberal Party	C-79, 1st floor, Gali No. 4, Radhey Shyam Park Extension, Radhey Shyam Part Exnt. Colony, Ghondli Ward, Krishina Nagar, Delhi- 110051
2375	Bharatiya Samtawadi Party (A)	Near Khan Atta Chakki, Opposite Devi Lal Colony, Saraswati Vihar, Mehlana Road, Tehsil & District- Sonapat, Haryana- 131001

2376	Bhartiya Sabka Dal	Moh. Golwar Tola, P.O, P.S & Tehsil – Mohammadabad Gohna, District- Mau, Uttar Pradesh- 276403
2377	Rajnaitik Chetna Dal	Plot No. 78, Khata No. 93, Village- Sikariya, P.O. Sughari, P.S. Govindpur, District- Nawada, Bihar- 805126
2378	Bharastachar Apraadh Mukht Nyay Dal	H. No. – A-1061, Sector- I, L.D.A.Colony, Kanpur Road, Post- L.D.A. Colony, District- Lucknow, Uttar Pradesh- 226012
2379	Bhartiya Rashtriya Dal	C- 6/52, Yamuna Vihar, Delhi- 110053
2380	Rashtrawadi Janvikas Party	H.No. 7-G-27, Jawahar Nagar, Sri Ganganagar, Rajasthan- 335001
2381	Azad Bharat Party (National)	Village- 50, Kutiya Rampur, Pargana & Tehsil- Narwal, District- Kanpur Nagar, Uttar Pradesh- 209401
2382	Indian Alliance Party	Shop No. 6, L/1/21/6/83, Alnoor Society, Ahmedabad Road, Balasinor, District- Mahisagar, Gujarat- 388225
2383	Anna Dravidar Kazhagam	No. 8/1, Cutchery Road, Thiruthuraiipoondi, District- Thiruvavur, Tamil Nadu- 614713
2384	Aam Jan Niti Party	Ward No. 8, Sector No. 12L, Near G.G.S.Public School, Hanumangarh Junction, District- Hanumangarh, Rajasthan- 335512
2385	Karnataka Samata Paksha	No. 718, S.Kalledar Plot, Tiriapur, Navalgund, District- Dharwad, Karnataka- 582208
2386	Aarthik Vikas Party	Nil Kanth Dham Math Jinda Naga Samadhi, Gram- Kittukhedi, Post- Zarda, Tehsil- Malhargarh, District- Mandsaur, Madhya Pradesh- 458553
2387	Aman Aur Shanti Tehreek-E-Jammu & Kashmir	JK-E-Khdmak Markaz, K.P. Chowk, Khanabal, Anant Nag, Near Govt. Higher Secondary School, Jammu & Kashmir- 192101
2388	Bharathiya Pragnavantha Congress	No. 60c, 80 Feet Road, ITI Layout, Mallathahalli, Nagarrabhavi Ward, Bangalore, Karnataka- 560056
2389	Shram Shakti Party	J-1749, J- Block, Jahangirpuri, Delhi- 110033
2390	Yuva Karnataka Paksha	#66, Anepura Village, Nidharamangala Post, Malur Taluk, Kolar District, Karnataka- 563137
2391	Indian People Association Party	H.No. 2-74, Village- Venkatapur, Laxmi Narasimha Swamai Temple, Town/Mandal- Velpur, District- Nizamabad, Telangana State-503311
2392	Voice of Labour Party (Jammu & Kashmir)	Khasra No. 539, Village- Atti, Post- Fathepur, Tehsil & District- Rajouri, Jammu & Kashmir- 185131

2393	National Socialist Party (United)	Flat No. 6, 1st Floor, Sai Kripa Housing Society, 45/6, Hospital Colony, Talegaon, Dabhade, Taluka- Maval, District- Pune, Maharashtra- 410507
2394	Party of United Indians	Bungalow No. 1, Akshay Co.Operative Housing Society, Near H.P Gas Godown, Badlapur (East), Taluka- Ambernath, Thane, Maharashtra- 421503
2395	Bhartiya Manav Kalyan Party	E- 49/1, Raj Harsh Colony, Kolaar Road, Bhopal, Madhya Pradesh- 462042
2396	Rashtriya Jan Samarthan Party	A-122B, Ground Floor, Hari Nagar, New Delhi- 110064
2397	Samaj Sudharak Party	House No.723/2,Mangal Pandey Nagar, Sector-2, University Road, Meerut, Uttar Pradesh-250004
2398	Tipu Sultan Party	56/2, Attar House Near Karbala Bes, Revivar Peth, Ambajogai, District-Beed, Maharashtra-431517
2399	Uttara Karnataka Party	No. 25, 4th cross, MSR Nagar, Bengaluru, Karnataka-560054
2400	Akhil Bhartiya Kisan Majdoor Party	Village-Faridpur, Tehsil-Tigaon, District-Faridabad, Haryana- 121101
2401	Rashtrawadi Jansangh	Pakri Gandhi Nagar More, (Katira Road), Near Jain Collage East Gate, Katira, Aara, Nawada, District-Bhojpur, Bihar-802301
2402	Swadeshi Hind Party	Village & Post-Hatisa, Mathura Road Crossing ke Pass, Tehsil & District-Hathras, Uttar Pradesh-204101
2403	Sambhaji Brigade Party	Sai Complex, Gala No.7, New Mondha, Hingoli, Tehsil & District-Hingoli, Maharashtra-431513
2404	Rayalaseema Praja Samithi	H.No.5-54, Chowdeswari Bazar, Post & Mandal-Kodumur, Kurnool District, Andhra Pradesh-518464
2405	National Samajwadi Congress	No.42, Naidu Layout, Kuvempu Nagar, Bangalore, Karnataka-560014
2406	Swaraj Kranti Party	B-31, Second Floor, Tejendra Complex, Opp.C.M.C., Odhav Road, Odhav, Ahemdabad, Gujarat- 382415
2407	Telugu Janata Party	No.70-7-16/2A, Ramnayyapeta, TSR Nagar, Road No.2, Kakinada Urban Mandal, E.G.District, Andhra Pradesh-533003
2408	Akhil Bhartiya Janadesh Party	House No.43, Village-Delhua near Berubarvari, Main Road, Shuukhpura, Bansdih-Road, District-Ballia, Uttar Pradesh-277301
2409	Satyanishth Jan Sewak Party	House No.128, Ward No.5, Lalit Nagar, Opposite SDM's Residence, Tehsil and P.O-Sunder Nagar, District-Mandi, Himachal Pradesh-175019

2410	Peoples Ruling Party	Flat No.74, Gandhi Nagar, Chakali Gunta, Etukuru Road, Kamma Seshiah Ground, Revenue Ward-32, Guntur, Andhra Pradesh-522003
2411	Karnataka Janaseve Party	Old PID No.36, Khata No.151, Survey No.42, Kaveripura Main Road, No.587, Near Mahadeshwara, Temple Road, Ranganathapura, Kamkshipalya, Bengaluru, Karnataka-560079
2412	Sab Jan Vikas Rashtriya Party	Shop/House of Nabi Rasul Ansari S/o Mohammad Husen, Village & Post Baragaon, Via Kharasara, District-Balia, Uttar Pradesh -277302
2413	Revolutionary Party	SH-3/40, R.S.Vishwanathpuri Colony, Nawalpur, Varanasi, Uttar Pradesh-221003
2414	Udaya Chandra Desam Party	No.27, KamarajNeduchalai, Old Perungulathur, Chennai, Tamil Nadu-600063
2415	Karnataka Rashtra Samithi	No.31/2, 8th E Main, 4th Block, Jayanagar, Bengaluru, Karnataka-560011
2416	Anaithu Ulaga Tamilargal Munnetra Kalagam	No.17, Ezhil Nagar, perumalpuram, Palyamkottai, Tirunelveli, Tamil Nadu-627007
2417	Aam Lok Party United	House No. 328, Street No. 4, Neta ji Park Haibowal, Kalan, Ludhiana, Punjab-141001
2418	Zoram People's Movement	Treassury Square, Aizawl, Mizoram-796001
2419	Hum Ek Hai Party	House No. 212, Khasra No.15/21, Rashid Nagar, Nal Saheb Road, Nagpur, Maharashtra-440018
2420	Bharatiya Samajwadi party (Loktantrik)	Moh. Chahshiri, Punjab & Sindh Bank Lane, Civil Lines, Bijnor, District-Bijnor, Uttar Pradesh-246701
2421	Akhil Bharatiya Socialist Party	3, Circular Road, Prayagraj, Uttar Pradesh-211001
2422	Sarvjan Awaz Party	No.528, Block-B, Platinum Heights, Sector-18B, Dwarka, New Delhi-110078
2423	Jindabad Kranti Party	31/83A, 3rd Floor, Gali No.5, Bhikam Singh Colony, Vishwas Nagar, Shahdara, Delhi-110032
2424	Jana Shankhaaraavam Party	H.No.4-1-216/54/502, Karthikeya Nagar, Nacharam, Uppal, Medchal Malkajgiri District, Telangana State-500076
2425	Jannayak Yuva Shakti Party	H.No.587/20, Near Khasa Chowk , Rameshwar Puram Colony, Kabirpur, Sonipat, Haryana-131001
2426	India Greens Party	104, Vardhman Complex, 1st Floor, LSC, Savita Vihar, Delhi-110092
2427	Praja Adhikara Party	D.No.4/107-1, S.C.Colony, Kurnool Mondal, Panchaliagala Village, Kurnool District, Andhra Pradesh-518004

2428	Bharatiya Janchetna Dal	No.70, LIG Indra Nagar, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh-208026
2429	Haq Insaaf Party	No.3037, Talab Khatikan, Jammu, Jammu & Kashmir-180001
2430	Bahadur Aadmi Party	S-11/37-38A, Chaukaghat, Varanasi, Uttar Pradesh-221002
2431	Rashtriya Poorvanchal Ekta Party	Plot No.145, Paigamberpur, Post-Rasulgarh, P.S-Sarnath, Varanasi, Uttar Pradesh-221007
2432	Desha Dal	Manas Ranjan Mishra Khatian No.466/90, Tehsil No.198, Anand Vihar, Sarbahal, Near Hanuman Mandir, PO & PS-Jharsuguda, District-Jharsuguda, Odisha-768201
2433	Bhartiya Jan Samaj Party	L.G.F.123, Khazana Complex, Ashiyana, Lucknow, Uttar Pradesh-226012
2434	Sakala Janula Party	No.7-23/1, M.Venkatayapalem, Khammam Rural, Khammam District, Telangana-507003
2435	Indian National Secular Democratic Party (of India)	Virk Farm, Near Main Canal Bridge, Verowal Road, Jandiala Guru, District-Amritsar, Punjab-143115
2436	Arjak Adhikar Dal	No.128/169/26A, K-Block, Kidwai Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh-208011
2437	Republican Party of India (Athawale)	No.3/4, Insa Hutment, Azad Maidan, Fort, Mumbai, Maharashtra-400001
2438	Mooljan Shakti Party	H.No.394, Gali No.18, Near Vishwakarma Mandir, Karan Vihar, Karnal, Haryana-132001
2439	Indian National Youth Party	No.68-B, Devasandra, K.R.Pura, Bengaluru Karnataka-560036
2440	Ambedkar Sena Party	Village-Kabri, Near Ravidas Mandir, Tehsil and District-Panipat, Haryana-132013
2441	Hindustanwadi Party (Jaihind)	H.No.102, Village-Ramdattpur, Post-Pandaypur, P.S.Cantt, Varanasi, Uttar Pradesh-221007
2442	Anna MGR Dravida Makkal Kalgam	No.150, 3rd Cross Street, Srilakshmi Nagar, Alwarthirunagar, Chennai, Tamil Nadu-600087
2443	Democratic Social Justice Party	Thiruvonam, NLRA-140, Neerazhi Lane (No.7/242), Trivandrum Corporation, Uloor, Medical College, PO-Trivandrum, Kerala-695011
2444	Indian National Yuva Jana Party	H.No.9-14, Prashant Nagar, Boduppal, Ghatkesar Mandal, Ranga Reddy District, Telangana-500092
2445	Jana Rajyam Party	H.No.8-217/16, Dharmareddy Arcade, Flat-T1, Gayatri Nagar, Laxminagar Colony, Road No.3, Jillela Guda Municipality, Balapur Mandal, Rangareddy district, Telangana- 500097
2446	Janta Swabhimani Party	Katghara Dehati, Haveli, Sadar, Jaunpur, Uttar Pradesh-222002

2447	Karunadaga Thamizhar Katchi	No.15, Nidharsanam, JV.Shetty Road, Ramasamy Palya, MS Nagar Post, Bengaluru, Karnataka-560033
2448	Supreme Zero Party of Bharat	Ward No.6, Holding No.222, Upara Shahi, Khordha Municipality, At/PO/PS/District-Khordha, Odisha-752056
2449	Mana Telangana Rashtra Samaikya Party	MIG OG Block Ist Floor No.6, Bhaglingampally, Above Apollo Pharmacy, Opp.TSSPDCL, Office and Electric Substation, Near Sundaraiah Vignana Bhavan and Park, Hyderabad, Telangana-500044
2450	Lok Sena Party	Ahmed Nagar Road, House No.1-4-2956, Gulshan Nagar, Balepir, Beed, Maharashtra- 431122
2451	Nyay Party	No. 319, Swamipada, Budhana Gate, Meerut City, Uttar Pradesh-250002
2452	Bhartiya Lok Satta Party	Gali No.6, Ward No. 47, Gadora ke Pura, District-Morena, Madhya Pradesh-476001
2453	Rashtriya Jaihind Party	Adarsh Nagar, Kokar, P.S.Sadar, District-Ranchi, Jharkhand-834001
2454	Bharatiya Sangharsh Morcha	C4/33, EWS Vishwa Bank Colony, A.D.A, Naini, Tehsil-Karchana, Prayagraj, Uttar Pradesh-212301
2455	Rashtriya Secular Majlis Party	Ward No.36, Village-Bihar Sharif, Badi Dargah, Nalanda, Bihar-803101
2456	Bhartiya Sangharsh Samiti	H.No.4684, Nisar Nagar, Infront of Krida Sankul, Jambhrun Road, Sangwan, Buldana, Maharashtra-443001
2457	Ambedkar Vikas Party	Village-Rohta, Indira Awas Colony, P.S. Sadar Bazar, Agara, Uttar Pradesh-282009
2458	Kanoon Raj Party	D-1/1045, Gali No.27, Harsh Vihar, Shahdara, Delhi-110093
2459	Akhand Manav Party	House No.C-20, Nilbad Bala jee Nagar, Phase-I, Tehsil-Huzur, District-Bhopal, Madhya Pradesh-462044
2460	Bhartiya Jan Samrasata Party	5081, Vishwkarma Nagar, Plot No.80, Ward No.14, Dwarkapuri, Rameshwari Road, Near Radha Mandir, Parvati Nagar, Nagpur, Maharashtra-440027
2461	Rashtriya Samajhit Dal	Moh.Devi Mandir Colony (D.M.Colony), Near Petrol Pump, Digha, Patna, Bihar-800011
2462	Odhisha Kalyan Party	Plot No.44 (1st Floor), P.O.-Satyanagar, P.S.-Kharabela Nagar, City-Bhubaneswar, Distict-Khordha, Odisha-751007
2463	Sikkim National People's Party	The Dzong, MG Marg, Gangtok, East Sikkim-737101

2464	Rashtriya Manav Sewa Party	Khata No.60, Khasra No.03, Mauja No.82, Shree Nagar House, Samukhiya More, Near New Police line Banka, District-Banka, Bihar- 813102
2465	Netaji Congress Sena	Ranga Place, Ground Floor, S. No. 48/2/10, Waghjal Nagar, Ambegaon Khurd, Katraj-PO, Pune-411046
2466	Akhil Bharatiya Jan Shakti Party	2538, Hudson Line, GTB Nagar, Delhi-110009
2467	Bhartiya Nagrik Suraksha Party	No.13, New Ketan Society, Near Uma Shikshan Tirth, Bh. Bhagyoday Society, Naroda, Ahemdabad, Gujarat-382325
2468	Rashtriya Jan-Swabhiman Party	No.1-B, 223, M.I.G, Awas Vikas Colony, Rukunpur, Shikohabad, District-Firozabad, Uttar Pradesh-283135
2469	Rashtriya Bhagidari Party	Sreesheepama Building, Opposite Amity University Gate No.1, Nizampur, Malhour, P.S-Chinhat, Tehsil-Sadar Lucknow, Uttar Pradesh-226028
2470	Vishal Janta Party	No. 1/4649/183, Budh Bazar Gali, Sub Gali No.08, Mandoli Road, New Modern Shahadra, Delhi-110032
2471	Rashtriya Samaj Dal (R)	H.No.193, Ward No.7, Shastri Nagar, Koraon, Allahabad, Uttar Pradesh-212306
2472	Human Democratic Party	D.No.2/42, Boosipalli Village, Thenepalli Post, Vepanapalli Panchayathi, Puthalapattu Mandal, Chittoor District, Andhra Pradesh-517124
2473	Lok Shakti Party (Loktantrik)	House No.2, 3rd Floor, Shakarpur Khass, Delhi-110092
2474	Rashtriya Yuva Morcha Dal	Village-Baliji, Post-Phephana, District-Balia Uttar Pradesh-277503
2475	Pahadi Party	Village-Talli Bagi, Patti-Sarjula, Post-Bhagirathpuram, Vikas Khand-Chamba, District-Tehri Garhwal, Uttarakhand-249145
2476	Tararani Paksha	W. No. 6, H. No. 2067, Dhangar, Mal, (Shivnagar), Korochi, Tal. Hatkangale, District – Kolhapur, Maharashtra – 416109
2477	Aapsi Sahyog Party	E-737, E-Block, J.J. Colony, Mangolpuri, Delhi- 110083
2478	All India Majlis-E-Inquilab-E-Millat	No. 23-1-1009/13, Moghalpura, Hyderabad, Telangana- 500002
2479	Digital Organization of Nation Party	Ward No. 25, Property No. 35, Plot No. 3776, Motinagar Pusad, Taluka Pusad, District- Yavatmal, Maharashtra- 445204.
2480	All India Youth Development Party	4/286, Kallipuram Vattam, Vella Kuttai Village, Vaniyambadi Taluk, Vellore District, Tamil Nadu – 635752.
2481	Makkal Munnetra Congress	No. 12, 1st Cross Street, Balaji Nagar, Puducherry- 605013

2482	Lokshahi Nirman Party	No. 6, Prime Rose, Queens Park, Behind Deepak Hospital, Mira Bhayandar Road, Mira Road, District- Thane, Maharashtra- 401107
2483	Gareebjan Samaj Party	706/A-6, Tirkha Road, Jagrati Vihar, Garh Road, Meerut-250004, Uttar Pradesh
2484	Mazdoor Ekta Party	No. B-2/208, Nand Nagri, Shahadara, Delhi- 110093
2485	Sarva Samaj Janata Party	Village and Post- Oril (Khapadiya Chak), Tehsil- Phoolpur, P.S.- Pawari, District- Azamgarh Uttar Pradesh- 223222
2486	Swarajya Sena (Maharashtra)	No. 586, Moh. Masurdi, Post- Taka, Tehsil- Ausa, District- Latur, Maharashtra- 413520
2487	Mother Land National Party	Survey No. 20+21, Duplex No. 05, Noman Duplex, Near Iqbal Avenue, Near Canal, Fatehwadi, Ahmedabad, Gujarat- 380055

- (i) Against Sl. No. 708, in respect of 'Democratic Movement' the existing entry under column 2 shall be substituted by the entry 'Nature Mankind Friendly Global Party'
- (ii) Against Sl. No.908, in respect of 'Indian Public Party', the existing entries under column 3 shall be substituted by the entries 'B-1, Raj Complex, Sanskar Mandal, Bhavnagar – 364002, Gujarat.'
- (iii) Against Sl. No. 1136, in respect of 'Jharkhand Mukti Morcha (Ulgulan)', the existing entries under column 3 shall be substituted by the entries 'C/o - Shri Om Prakash Singh, Village & Post - Madhukam, Road No.4, Thana - Sukhdev Nagar, District - Ranchi, Jharkhand - 834001'.
- (iv) Against Sl. No. 1509, in respect of 'People's Union Party', the existing entries under column 3 shall be substituted by the entries 'Dharmavat House, House No.1015, Shukrawar Peth, Tilak Road, Swargate, Pune-411002, Maharashtra.'
- (v) Against Sl. No. 1534, in respect of 'Pragatisheel Janta Party', the existing entries under column 3 shall be substituted by the entries 'Bajrang Vihar Colony, Digha Ashiyana Road, Thana-Rajiv Nagar, Post-Ashiyana Nagar, Patna-800025, Bihar'.
- (vi) Against Sl. No.1677, in respect of 'Rashtriya Bhagidari Samaj Party', the existing entries under column 3 shall be substituted by the entries 'Village – Garhi (Mehanda More), Tehsil-Hansi, District – Hisar, Haryana -125033'.
- (vii) Against Sl. No.1783, in respect of 'Rashtriya Loktantrik Party', the existing entries shall be deleted.
- (viii) Against Sl. No.1941, in respect of 'Samaniya Makkal Nala Katchi', the existing entries under column 3 shall be substituted by the entries 'S.F. No. 1172/12A, Karur Bypass Road, Indira Nagar, Erode, Tamil Nadu-638002'
- (ix) Against Sl. No. 2029, in respect of 'Seva Dal', the existing entries under column 3 shall be substituted by the entries '532 (Opp.126-R), C.R. College Road, Model Town, Rohtak – 124001, Haryana'.

3. In *Table IV* (List of Free Symbols), appended to the said Notification:-

- (i) The entry in respect of symbol "Bottle" at Sl.No.20 shall be deleted

By order,

N.T. BHUTIA,
SECRETARY,
ELECTION COMMISSION OF INDIA.